

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 1979/फाल्गुन 4, 1900
No. 54] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 1979/PHALGUA 4, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार विभाग

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1979

सार्वजनिक सूचना संख्या-13 आई टी सी (पी एन)/79

विषय :- कुक्कुटादि बेकसीन आयात—आयात नीति 1978-79

[निम्निल संख्या-आई पी सी/3/15/78] :- सार्वजनिक सूचना संख्या 66 आई टी सी (पी एन)/78, दिनांक 4-9-78 द्वारा यथा-संशोधित वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना संख्या-22 आई टी सी (पी एन)/78, दिनांक 3 अप्रैल, 1978 के अधीन प्रकाशित आयात नीति 1978-79 को धोर ध्यान दिलाया जाता है। 1

2. आयात-नीति 1978-79 में निम्नलिखित संशोधन करने का विषय किया गया है :—

आयात नीति 1978-79 की पृष्ठ संख्या	संशोधन	संशोधन के विवरण
1	2	3
44	परिशिष्ट—3 प्रविष्टि संख्या—427	इस प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा ।
45	परिशिष्ट—5 प्रविष्टि संख्या—258	इस प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा ।

का० वे० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 23rd February, 1979

PUBLIC NOTICE NO. 13—LIC (PN)/79

Subject:—Import of Poultry Vaccines—Import Policy, 1978-79.

[F. No. IPC/3/15/78]:—Attention is invited to the Import Policy, 1978-79 published under the Department of Commerce Public Notice No. 22-ITC(PN)/78, dated the 3rd April, 1978, as amended vide Public Notice No. 66-ITC(PN)/78, dated 4-9-1978.

2. It has been decided to make the following amendments in the Import Policy, 1978-79 :—

Page No. of the Import Policy, 1978-79	Reference	Details of amendment
1	2	3
44	Appendix 3, Entry No. 427	This entry shall be deleted.
63	Appendix 5, Entry No. 258	This entry shall be deleted.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports